



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1039]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2004/अग्रहायण 16, 1926

No. 1039]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2004/AGRAHAYANA 16, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2004

**का.आ. 1333(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 29 (अ) तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 के 0/0 कि.मी. से 22/850 कि.मी. (कृष्णागिरि-रानीपेट सैक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार तारीख 18 अप्रैल, 2004 के “दि हिन्दू” और “दीना थांथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और, उक्त भूमि में हितवद्ध किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ।

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

### अनुसूची

जिला : कृष्णागिरि (धर्मापुरी)

तालुक : कृष्णागिरि

| क्रम सं. | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी० में | भूस्वामी का नाम और हितबद्ध व्यक्ति  |
|----------|-------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| (1)      | (2)         | (3)              | (4)            | (5)             | (6)                            | (7)   |
| 1.       | मादेपल्ली   | 28/1बी1          | निजी           | शुष्क           | 50                             | श्रीमती कल्पना पत्नी विवेकानंदन   |
|          |             | 31/2ए2           | निजी           | शुष्क           | 200                            | 1) मुरुगन पुत्र वैकटसमाचेट्टी<br>2) विजया पत्नी शनमुगम  |
|          |             | 37/1बी           | निजी           | शुष्क           | 3950                           | 1) ई सी अलागेसन पुत्र चिन्ना सामी   |
|          |             | 42/1ए1बी         | निजी           | शुष्क           | 200                            | 1) कावेशी पत्नी बी टी मनोगरन<br>2) अगिला पत्नी एम बी मनोगरन<br>3) पुनिथावल्ली पत्नी जी अशोकन<br>4) लोगनाथन पुत्र कोरगाचेन्नाप्पा चेट्टी |
|          |             | 42/1बी1बी        | निजी           | शुष्क           | 50                             | 1) बामा पत्नी लोगनाथन   |
|          |             | 42/1डी2ए         | निजी           | शुष्क           | 100                            | 1) बामा पत्नी लोगनाथन   |
|          |             | 42/2बी1          | निजी           | शुष्क           | 100                            | 1) अगिला पत्नी एम बी मनोगरन<br>2) पुनिथवल्ली पत्नी असोकन<br>3) कावेशी पत्नी बी टी मनोगरन  |
|          |             | 51/1ए2ए          | निजी           | नम              | 50                             | 1) बेलगाचेट्टी पुत्र वैकटाप्पाचेट्टी<br>2) कृष्णन पुत्र कुप्पय्याचेट्टी<br>3) एम बी वर्धन<br>4) एम बी गोविन्दन                          |
|          |             | 100/3ए2          | निजी           | शुष्क           | 100                            | 1) मुनियप्पा नायडू<br>2) गुरुविनायडू पुत्र गुरुप्पानायडू  |
|          |             | 100/5            | निजी           | शुष्क           | 100                            | 1) गुरुराप्पनायडू<br>2) मुनिसामीनायडू<br>3) मुनियप्पानायडू<br>4) वैकटप्पानायडू<br>5) वैकटम्मल   |

| (1) | (2)    | (3)        | (4)  | (5)   | (6) | (7)   |
|-----|--------|------------|------|-------|-----|---|
|     |        | 101/1ए2    | निजी | शुष्क | 450 | 1) गुरुपानायडू<br>पुत्र मुनिसामीनायडू   |
|     |        | 109/3      | निजी | शुष्क | 450 | 1) गोविन्दचेट्टी पुत्र<br>बेट्टापपाचेट्टी और अन्य   |
| 2.  | बारगुर | 437/2ए2    | निजी | शुष्क | 350 | कृष्णन पुत्र कोरलाचिन्नाप्पाचेट्टी  |
|     |        | 438/1बी    | निजी | शुष्क | 250 | 1) के एस रामासामी चेट्टी पुत्र<br>कोरलाचिन्नाप्पा चेट्टी<br>2) जी कृष्णन पुत्र गोविन्दचेट्टी  |
|     |        | 440/4ए2    | निजी | शुष्क | 100 | 1) के बालन<br>पुत्र कुप्पूसामी<br>2) सत्यमूर्ति पुत्र टी<br>रंगाप्पाचेट्टी  |
|     |        | 440/4सी    | निजी | शुष्क | 100 | 1) के बालन<br>पुत्र कुप्पूसामी<br>2) सत्यमूर्ति पुत्र टी<br>रंगाप्पाचेट्टी  |
|     |        | 465/1सी3ए  | निजी | शुष्क | 500 | 1) वी रंगाप्पन पुत्र बी आर जी<br>वेंकटेशन   |
|     |        | 466/8      | निजी | शुष्क | 150 | 1) वी रंगाप्पनपुत्र बी आर जी<br>वेंकटेशन  |
|     |        | 466/9      | निजी | शुष्क | 200 | 1) कृष्णन पुत्र कोरलाचिन्नाप्पा<br>चेट्टी   |
|     |        | 486/1बी1बी | निजी | शुष्क | 400 | 1) वी रंगाप्पन पुत्र बी आर जी<br>वेंकटेशन   |
|     |        | 497/2बी1   | निजी | शुष्क | 200 | 1) चिन्नाराज पुत्र गोविन्दचेट्टी<br>2) सी असोकन पुत्र बी टी<br>चेन्नईयन<br>3) टी असोकन पुत्र थिम्मीचेट्टी<br>4) जी चेन्नाराज<br>5) चोक्कालिंगम पुत्र थिम्मीचेट्टी |
|     |        | 498/1ए2    | निजी | शुष्क | 200 | 1) थिम्मीचेट्टी पुत्र बी टी<br>चेन्नईयन   |
|     |        | 498/2ए2    | निजी | शुष्क | 300 | 1) बी टी चिन्नईयन पुत्र<br>थिम्मीचेट्टी   |
|     |        | 517/1ए2    | निजी | शुष्क | 400 | 1) लोगनाथन<br>2) चन्द्रन पुत्र<br>कोरगाचिन्नाप्पाचेट्टी   |

| (1) | (2) | (3)        | (4)  | (5)   | (6)  | (7)  |
|-----|-----|------------|------|-------|------|--|
|     |     | 517/3ए2    | निजी | शुष्क | 450  | 1) मारिचेट्टी पुत्र यंग चेट्टी<br>2) इन्द्रा पत्नी मनोगरन<br>3) जयंती पत्नी कृष्णन<br>4) श्रीनिवासन पुत्र मारिचेट्टी                           |
|     |     | 518/1ए2ए2  | निजी | शुष्क | 100  | 1) चन्द्रन<br>2) लोगनाथन पुत्र<br>कोर्याचेन्नाप्पाचेट्टी   |
|     |     | 518/1बी1ए2 | निजी | शुष्क | 100  | 1) बी टी चेन्नईयन पुत्र<br>थिम्मीचेट्टी  |
|     |     | 518/1सी3ए2 | निजी | शुष्क | 600  | 1) इन्द्रा पत्नी मनोगरन<br>2) जयंती पत्नी कृष्णन<br>3) श्रीनिवासन पुत्र मारिचेट्टी   |
|     |     | 518/1डी1ए2 | निजी | शुष्क | 1800 | 1) चिन्नियन पुत्र मुसागपविन्द<br>चेट्टी<br>2) शिवप्रकासन पुत्र गोविन्दचेट्टी<br>3) रंगप्पाचेट्टी पुत्र थिम्मीचेट्टी<br>4) असोकन पुत्र वाडिबेलु |
|     |     | 518/7      | निजी | शुष्क | 500  | 1) रंगप्पाचेट्टी पुत्र बी<br>थिम्मीचेट्टी  |

[फा.सं. भाराप्र/18011/23-1/2000-पीआईयू-IV/3डी/110]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2004

**S.O. 1333(E).**— WHERE AS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.29(E) dated 8<sup>th</sup> January, 2004 issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to the said notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 46 on the stretch of land from Km.0/0 to Km.22/850 (Krishnagiri – Ranipet Section) in the State of Tamilnadu;

AND WHEREAS, substance of the said notification was published in “The Hindu” and “Dina Thanthi” both dated 18<sup>th</sup> April, 2004.

AND WHEREAS, no objections have been received from the persons interested in said land;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted his report to the Central Government;

NOW, THEREFORE, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

AND, FURTHER, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

**DISTRICT : KRISHNAGIRI (Dharmapuri)**

**TALUK : KRISHNAGIRI**

| Sl. No. | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area of land in Sq.Mtrs. | Name of the owners and interested persons  |
|---------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|--|
| (1)     | (2)                 | (3)           | (4)          | (5)            | (6)                      | (7)  |
| 1.      | MADEPALLI           | 28/1B1        | Private      | Dry            | 50                       | Tmt. Kalpana<br>W/o Vivekanandan   |
|         |                     | 31/2A2        | Private      | Dry            | 200                      | 1) Murugan<br>S/o Venkataramachetty<br>2) Vijaya<br>W/o Shanmugam  |
|         |                     | 37/1B         | Private      | Dry            | 3950                     | 1)E.C.Alagesan<br>S/o Chinna Swamy   |
|         |                     | 42/1A1B       | Private      | Dry            | 200                      | 1)Kaveri<br>W/o V.T.Manogaran<br>2)Agila<br>W/o M.B.Manogaran<br>3)Punithavalli<br>W/o G.Ashokan<br>4)Loganathan<br>S/o Korgachennappa<br>Chetty |
|         |                     | 42/1B1B       | Private      | Dry            | 50                       | 1)Bama W/o Loganathan  |
|         |                     | 42/1D2A       | Private      | Dry            | 100                      | 1)Bama W/o Loganathan  |
|         |                     | 42/2B1        | Private      | Dry            | 100                      | 1)Agila W/o<br>M.B.Manogaran<br>2)Punithavalli W/o<br>Asokan<br>3)Kaveri W/o<br>V.T.Manogaran  |
|         |                     | 51/1A2A       | Private      | Wet            | 50                       | 1)Belagachetty<br>S/o Venkatappachetty   |

3631 E/1/04-2

| (1) | (2)           | (3)      | (4)     | (5) | (6) | (7)  |
|-----|---------------|----------|---------|-----|-----|--|
|     |               |          |         |     |     | 2)Krishnan<br>S/o Kuppaiyachetty<br>3)M.B.Vardhan<br>4)M.B.Govindan  |
|     |               | 100/3A2  | Private | Dry | 100 | 1)Muniyappa Naidu<br>2)Guruvinaidu<br>S/o Guruppanaidu   |
|     |               | 100/5    | Private | Dry | 100 | 1)Gurrappanaidu<br>2)Munisamaynaidu<br>3)Muniappanaidu<br>4)Venkatappanaidu<br>5)Venkatammal   |
|     |               | 101/1A2  | Private | Dry | 450 | 1)Guruppanaidu<br>S/o Munisamaynaidu   |
|     |               | 109/3    | Private | Dry | 450 | 1)Govindachetty<br>S/o Bettappachetty and<br>others  |
| 2.  | <b>BARGUR</b> | 437/2A2  | Private | Dry | 350 | Krishnan<br>S/o Korlachinnappachetty   |
|     |               | 438/1B   | Private | Dry | 250 | 1)K.S.Ramasamy Chetty<br>S/o Korlachinnappa chetty<br>2)G.Krishnan<br>S/o Govindachetty  |
|     |               | 440/4A2  | Private | Dry | 100 | 1)K.Balan<br>S/o Kuppusamy<br>2)Sathiamoorthy<br>S/o T.Rangappachetty  |
|     |               | 440/4C   | Private | Dry | 100 | 1)K.Balan<br>S/o Kuppusamy<br>2)Sathiamoorthy<br>S/o T.Rangappachetty  |
|     |               | 465/1C3A | Private | Dry | 500 | 1)V.Rangappan<br>S/o B.R.G.Venkatesan  |
|     |               | 466/8    | Private | Dry | 150 | 1)V.Rangappan<br>S/o B.R.G.Venkatesan  |
|     |               | 466/9    | Private | Dry | 200 | 1)Krishnan<br>S/o Korlachinnappa chetty  |
|     |               | 486/1B1B | Private | Wet | 400 | 1)V.Rangappan<br>S/o B.R.G.Venkatesan  |
|     |               | 497/2B1  | Private | Dry | 200 | 1)G.Chinnaraj<br>S/o Govindachetty<br>2)C.Asokan<br>S/o B.T.Chenniyan<br>3)T.Asokan<br>S/o Thimmichetty<br>4)G.Chennaraj<br>5)Chokkalingam<br>S/o Thimmichetty |

| (1) | (2) | (3)       | (4)     | (5) | (6)  | (7)  |
|-----|-----|-----------|---------|-----|------|--|
|     |     | 498/1A2   | Private | Dry | 200  | 1)Thimmichetty<br>S/o B.T.Chenniyan  |
|     |     | 498/2A2   | Private | Dry | 300  | 1)B.T.Chinniyan<br>S/o Thimmichetty  |
|     |     | 517/1A2   | Private | Dry | 400  | 1)Loganathan<br>2)Chandran<br>S/oKoragachennappachetty   |
|     |     | 517/3A2   | Private | Dry | 450  | 1)Marichetty<br>S/o Young chetty<br>2)Indira<br>W/o Manogaran<br>3)Jayanthi<br>W/o Krishnan<br>4)Srinivasan<br>S/o Marichetty                  |
|     |     | 518/1A2A2 | Private | Dry | 100  | 1)Chandran<br>2)Loganathan<br>S/oKorayachennappachetty   |
|     |     | 518/1B1A2 | Private | Dry | 100  | 1)B.T.Chennaiyan<br>S/o Thimmichetty   |
|     |     | 518/1C3A2 | Private | Dry | 600  | 1)Indra<br>W/o Manogaran<br>2)Jayanthi<br>W/o Krishnan<br>3)Srinivasan<br>S/o Marichetty   |
|     |     | 518/1D1A2 | Private | Dry | 1800 | 1)Chinniyan<br>S/o Musagpvinda chetty<br>2)Sivaprakasan<br>S/o Govindachetty<br>3)Rangappachetty<br>S/o Thimmichetty<br>4) Asokan S/o Vadivelu |
|     |     | 518/7     | Private | Dry | 500  | 1)T.Rangappachetty<br>S/o B.Thimmichetty   |

[ F. No. NHAI/18011/23-1/2000-PIU-IV/3D/110 ]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.